

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 104/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एम.आई. रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती अनुराधा डोगरा पत्नी श्री सुरेश डोगरा
2. श्री सुरेश डोगरा पुत्र श्री पांजू राम डोगरा

पता :- मकान नं. सी-32, वैभव विला, सीताराम विहार विस्तार, पत्रकार कॉलोनी के पास, ग्राम धौलाई,
रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act,2002.



उपस्थित :- श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 07.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती अनुराधा डोगरा एवं श्री सुरेश डोगरा के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर सी-32, सीताराम विहार विस्तार, ब्लॉक-सी, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 115.00 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 31.10.2013 को राशि 17,50,000/- रूपये एवं दिनांक 29.07.2015 को राशि 08,00,000/- रूपये कुल राशि 25,50,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 25,50,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के

44
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था को पारा गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोवित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि ग्य ब्याज कुल राशि 08,05,001.08/- रूपये जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक 08.05.2023 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का गुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती अनुराधा डोगरा एव श्री सुरेश डोगरा के स्वागित्त्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-32, सीताराम विहार विस्तार, ब्लॉक-सी, ग्राम रामसिंहपुरा चर्फ रामपुरा, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 115.00 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द



आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर